

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2022—पौष 24, शक 1943

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 नवम्बर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कमलप्रीत सिंह, सचिव.**

**श्रम विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर**

नवा रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-25/2016/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त नियमों में,-

- नियम 11 के उप-नियम (2) में, शब्द "उसके साक्षात्कार के पश्चात्" के स्थान पर, शब्द "प्रतियोगी परीक्षा की मेरिट के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाये.
- अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची-एक  
(नियम 4 (1) तथा 5 देखिये)

**सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्यालय)	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
2.	निज सहायक	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
3.	अधीक्षक (श्रम न्यायालय)	03	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
4.	सहायक लेखाधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
5.	सहायक प्रोग्रामर	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
6.	सहायक अधीक्षक	16	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-8	
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	03	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	
8.	लेखापाल (बैंच)	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	
9.	सहायक ग्रेड-दो	25	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	
10.	सहायक ग्रेड-तीन	26	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4	
11.	स्टेनोटाइपिस्ट	14	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4	
12.	वाहन चालक	03	तृतीय श्रेणी	(वेतन मैट्रिक्स लेवल-4)	

**अनुसूची-दो**  
(नियम 6 देखिये)

**भर्ती का तरीका**

स. क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवा से सदस्यों के स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक/ संयुक्त पंजीयक (मुख्यालय)	01	—	100%	—	
2.	निज सहायक	01	—	100%	—	
3.	अधीक्षक (श्रम न्यायालय)	03	—	100%	—	
4.	सहायक लेखाधिकारी	01	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा
5.	सहायक प्रोग्रामर	01	100%	—	—	
6.	सहायक अधीक्षक	16	—	100%	—	
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	03	50%	50%	—	
8.	लेखापाल (बैंच)	01	—	100%	—	
9.	सहायक ग्रेड-दो	25	—	100%	—	
10.	सहायक ग्रेड-तीन	26	75%	25%	—	
11.	स्टेनोग्राफिस्ट	14	100%	—	—	
12.	वाहन चालक	03	100%	—	—	

टीप :- सहायक ग्रेड-तीन के 25% पद, उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों.

**अनुसूची-तीन**  
(नियम 8 एवं 9 देखिये)

**सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं**

स. क्र.	सेवा/ पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	<p>प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजीनियरिंग) या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी</p> <p>अथवा</p> <p>एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिकशास्त्र/ गणित/ सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/ अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी./एम.ए. या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी</p> <p>अथवा</p> <p>बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिकशास्त्र/गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/बी.एस.सी./बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी.</p>	
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद से -</p> <p>(क) शीघ्रलेखक हिन्दी के लिए - हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>	

				<p>(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p> <p>(ग) द्वि-भाषी शीघ्रलेखक के लिए – ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>	
3.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।</p> <p>(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>	

4.	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) । (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) ।	
5.	वाहन चालक	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	(1) कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।	

टीप :- ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची-चार  
(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति की रीति

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम अनुभव की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक/ संयुक्त पंजीयक (मुख्यालय)	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ - अध्यक्ष. (2) सदस्य जज, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ - सदस्य.	विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जायेगी
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	निज सहायक	5 वर्ष	(3) छानबीन समिति-वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी तथा आरक्षित वर्ग हेतु एक सदस्य, जैसा कि अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, मनोनीत करे - सदस्य."	
3.	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष		
4.	स्टेनो टाइपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	5 वर्ष		
5.	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल	5 वर्ष		
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष पाण्डेय, उप सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-25/2016/16.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-25/2016/16, दिनांक 29-11-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष पाण्डेय, उप सचिव.

Atal Nagar Raipur, the 29th November 2021

No. F 1-25/2016/16.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010, namely:-

#### AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (2) of rule 11, for the words "after interviewing them", the words "On the basis of merit of competitive examination" shall be substituted.
2. For SCHEDULE-I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely:-

#### "SCHEDULE-I (See rule 4 (1) and 5)

#### Classification of Service, Pay scale and the Number of Posts included in the Service

S. No	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Scale of Pay/ Pay Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent/ Joint Registrar (Head Office)	01	Class-III	Pay Matrix Level-9	
2.	Personal Assistant	01	Class-III	Pay Matrix Level-9	
3.	Superintendent (Labour Court)	03	Class-III	Pay Matrix Level-9	
4.	Assistant Account Officer	01	Class-III	Pay Matrix Level-9	
5.	Assistant Programmer	01	Class-III	Pay Matrix Level-9	

6.	Assistant Superintendent	16	Class-III	Pay Matrix Level-8	
7.	Stenographer Grade-III	03	Class-III	Pay Matrix Level-7	
8.	Accountant (Bench)	01	Class-III	Pay Matrix Level-6	
9.	Assistant Grade-II	25	Class-III	Pay Matrix Level-6	
10.	Assistant Grade-III	26	Class-III	Pay Matrix Level-4	
11.	Steno-Typist	14	Class-III	Pay Matrix Level-4	
12.	Driver	03	Class-III	Pay Matrix Level-4	

**SCHEDULE-II**  
(See rule 6)

**Method of Recruitment**

S.No	Name of the posts included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (See rule 6(1) (a))	By promotion of member of service (See rule 6(1)(b))	By transferred/ deputation of member of other services (See rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	01	---	100%	---	
2.	Personal Assistant	01	---	100%	---	
3.	Superintendent (Labour Court)	03	---	100%	---	
4.	Assistant Account Officer	01	---	---	100%	By deputation
5.	Assistant Programmer	01	100%	---	---	
6.	Assistant Superintendent	16	---	100%	---	
7.	Stenographer Grade-III	03	50%	50%	---	
8.	Accountant (Bench)	01	---	100%	---	



9.	Assistant Grade-II	25	---	100%	---	
10.	Assistant Grade-III	26	75%	25%	---	
11.	Steno-Typist	14	100%	---		
12.	Driver	03	100%	---		

**Note :-** 25% posts of Assistant Grade -III shall be filled by Class-IV employees, who have passed Higher Secondary Examination and have completed 05 years of service.

**SCHEDULE-III**  
(See rule 8 and 9)

**Qualification of Persons to be filled by Direct Recruitment**

S. No.	Name of the Service/post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Programmer	21 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	<p>B.E./B.Tech./B.Sc (Engineering) in 1<sup>st</sup> division or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Post Graduate in M.C.A/M.C.M./Information Technology, M.Sc./M.A. in first division in Physics/Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics /Computer Science or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR*</b></p> <p>Graduate in B.C.A/B.C.M./Information Technology, Post Graduate Degree in 1<sup>st</sup> division in Physics/Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics /B.Sc./B.A. Computer Science/Post Graduate Diploma in Computer Application in Computer Science or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade.</p>	

2.	Stenographer Grade-III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) From any recognized Board / Institute / Stenography (Shorthand) Typing Council -</p> <p>(a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p>
----	------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
3.	Assistant Grade -III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, <b>OR</b> Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute.</p> <p>(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).</p>	
4.	Steno-typist	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, <b>OR</b> Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) 60 words per minute Speed in Hindi - Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).</p>	

5.	Driver	21 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State	(1) Should have passed Class 8th examination.  (2) Valid Driving license issued by the Competent Authority.	
----	--------	----------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Note:-** The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE - IV  
(See rule 14)

**Method of Promotion**

S. No.	Name of service or posts from which promotion is to be made	Name of service or posts to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Superintendent	Superintendent/ Joint Registrar (Head office)	5 years	(1) President Industrial Court, Chhattisgarh - <b>Chairman.</b> (2) Member Judge, Industrial Court, Chhattisgarh - <b>Member.</b> (3) Scrutiny Committee- Senior Presiding Officer and one Member for the reserve category as per nominated by the President, Industrial Court, Chhattisgarh - <b>Member."</b>	Priority of Law Graduate
2.	Stenographer Grade-III	Personal Assistant	5 years		
3.	Assistant Grade-II/ Accountant	Assistant Superintendent	5 years		
4.	Steno Typist	Stenographer Grade-III	5 years		
5.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Accountant	5 years		
6.	Class-IV employee	Assistant Grade-III	5 years		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
**ASHUTOSH PANDEY**, Deputy Secretary.

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—राज्य शासन, एतद्वारा हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम, 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

क्र.	हज समिति की धारा	मनोनीत सदस्य
1.	<b>नियम की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) 1 तीन ( 3 ) सदस्य ( मुस्लिम सदस्यों में से ) :—</b> (क) राज्य के लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य (ख) राज्य विधान सभा का सदस्य (ग) राज्य विधान परिषद् का सदस्य	श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण एवं वन, बी-5/10, शंकर नगर, रायपुर.
2.	<b>नियम की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) 2 तीन ( 3 ) ( मुस्लिम सदस्यों में से ) :—</b> राज्य के स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका) के मुस्लिम सदस्यों में से	—
3.	<b>नियम की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) 3 तीन ( 3 ) सदस्य ( मुस्लिम समुदाय से ) :—</b> जो मुस्लिम धर्मज्ञान व मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ हो, इन सदस्यों में से एक शिया मुस्लिम समुदाय से आवश्यक है.	(1) मौलाना कारी सैय्यद अश्फाक अहमद अंजुम-पेश ईमामजामा मस्जिद हलवाई लाईन, रायपुर. (2) मौलाना डॉ. कारी ईमरान अशरफी-पेश ईमाम मस्जिद बैरन बाजार, रायपुर. (3) मौलाना असगर मेहन्दी, हैदरी मस्जिद मोमिनपारा, रायपुर.
4.	<b>नियम की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) 4 पांच ( 5 ) मुस्लिम सदस्य :—</b> ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हो.	(1) श्री इम्तियाज अहमद पिता-सैदुरजफर मु.पो. आमनदोन, नगर पंचायत प्रतापपुर, ईदगाह वार्ड नं.-6, जिला-सूरजपुर. (2) श्रीमती डॉ. रुबिना अल्वी, आर. के. नगर, दिपीका स्कूल के पीछे, राजनांदगांव. (3) शमीम अख्तर, संजय नगर, रायपुर
5.	एक (1) अध्यक्ष, राज्य वक्फ बोर्ड,	पदेन सदस्य
6.	एक (1) कार्यपालन अधिकारी/सचिव, राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2021

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2020-21.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम छोटे परोदा की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्रमांक (1)	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव (2)	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें (3)
01.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची “दो” की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

1. तदनुसार आज दिनांक 02-11-2021 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

क्रमांक/29/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	हिमोड़ा	4.81	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहकसा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

क्रमांक/30/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	तहकाल	1.75	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहकसा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

क्रमांक/32/अ-82/2016-17.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	हिमोड़ा	2.71	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहकसा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	खरी बड़े प.ह.नं. 32	1.298	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.



रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2019-20.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	केंवटीनढोही प.ह.नं. 31	1.997	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2019-20.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	ठाकुदिया प.ह.नं. 31	2.104	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सिंघनपुर प.ह.नं. 40	2.354	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कपिस्टा (ब) प.ह.नं. 40	1.140	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	ठाकुरपाली प.ह.नं. 40	6.853	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कटराडीह प.ह.नं. 31	1.452	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	नौरंगपुर प.ह.नं. 31	1.783	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	जोगनीपाली प.ह.नं. 63	2.023	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भीम सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

बस्तर, दिनांक 2 नवम्बर 2021

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-लोहण्डीगुड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेपरोदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

योग

04

0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर तथा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 14 दिसम्बर 2021

क्रमांक 10888/व.लि.शाखा/2021.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 5, 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के अधिसूचना क्रमांक एम-3/21/1999/1/4 दिनांक 30 मार्च 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ कैलेण्डर वर्ष 2022 के लिए, रायगढ़ जिले में निम्नांकित विवरण अनुसार सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	दिनांक	सप्ताह का दिन	पर्व/त्यौहार का नाम	घोषित अवकाश के दिनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01-07-2022	शुक्रवार	रथयात्रा	एक
2.	25-10-2022	मंगलवार	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	एक
3.	04-11-2022	शुक्रवार	देव उठनी एकादशी व्रत	एक

यह अवकाश कोषालय/उप कोषालय/बैंकों के लिए लागू नहीं होगा.

भीम सिंह,  
कलेक्टर.

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़**  
**शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर**

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2021

क्रमांक 21/चार/निरहिंत/2018-21/2235.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे, श्री डूडेन खाण्डे, जिला-कोरबा को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहिंत घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/21/2018, दिनांक 16 अगस्त, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

( रीना बाबासाहेब कंगाले )  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001**

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 ( शक )

सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु.-1/21/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 21-कोरबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री डूडेन खाण्डे जो छत्तीसगढ़ के 21-कोरबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री डूडेन खाण्डे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री डूडेन खाण्डे को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री डूडेन खाण्डे के पिता श्री पीताम्बर पटेल द्वारा 20 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा द्वारा अपने दिनांक 28 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 211/निर्वा.पर्य./सामा.निर्वा/2020-21 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा द्वारा अपने दिनांक 29 जुलाई, 2021 के पत्र सं. 898/सामा. निर्वा./नोटिस/2021 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री डूडेन खाण्डे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री डूडेन खाण्डे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 21-कोरबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री डूडेन खाण्डे, वार्ड क्र. 03 राताखार कोरबा, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/21/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 21-Korba Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Korba District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Duden Khande, Independent candidate from 21-Korba Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Korba District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 28th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Duden Khande, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 28th August, 2019, Sh. Duden Khande, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Pitamber Patel father of Sh. Duden Khande on 20th August, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Korba vide his letter No. 211/निर्वा.पर्य./सामा.निर्वा./2020-21 dated 28th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Korba vide his letter No. 898/सामा.निर्वा./नोटिस/2021 dated 29th July, 2021, has stated that Sh. Duden Khande, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Duden Khande, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Duden Khande, resident of Ward No. 03 Ratakhari Korba, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 21-Korba Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.